



मगध विश्वविद्यालय, बोधगया Magadh University, Bodh Gaya

आज दिनांक २४-१२-२०२१ को माननीय कुलपति महोदय द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में नामांकन संबंधी सूचना

१. स्नातकोत्तर सत्र 2019-21 में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया के अलावा तीन अन्य महाविद्यालय गया कॉलेज गया, सिंहा कॉलेज, औरंगाबाद, एस एस कॉलेज, जहानाबाद में संचालित हो रहे हैं। कुल नामांकन 4294 हुए हैं। विज्ञान के विषयों में सभी सीट भर गए हैं। कला के विषयों में अभी सीटें रिक्त हैं। कुल सीटें 5500 हैं। स्नातकोत्तर विषयों की कक्षाएं 10 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन शुरू कर दी गई है।

२. स्नातक सत्र 2019-21 में नामांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। मगध विश्वविद्यालय, बोधगया अंतर्गत अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में कुल सीटें 108000 हैं। जिस पर 90248 प्रवेश हो चुके हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। उम्मीद है तब तक सभी सीटें भर जाएंगी। माननीय कुलपति के दिशा निर्देशों अनुसार छात्रों के विशेष आग्रह पर मगध विश्वविद्यालय, बोधगया अंतर्गत स्नातक प्रथम खण्ड 2020-23 में नामांकन प्रक्रिया में छूटे हुए छात्र-छात्राओं को पूर्व की भांति ऑनलाइन नामांकन हेतु दिनांक 27/12/2020 से 05/01/2021 तक आवेदन Application Online Portal पर submit कर सकेंगे। चुकि सी० बी० एस० ई० तथा अन्य बोर्ड के Supplementary Student का काफी विलंब से परीक्षाफल प्रकाशित हुए हैं जिसके कारण ऑनलाइन प्रक्रिया में छात्र-छात्राये वंचित रह गए हैं। अतः उक्त नामांकन की प्रक्रिया Spot Admission में दिनांक 10/01/2021 तक कर दिया गया है। अतः अंगीभूत एवं सम्बद्ध के तहत सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया है कि 10 जनवरी 2021 तक Spot Admission से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया को समाप्त कर लेंगे। स्नातक विषयों के सीटों में 20 परसेंट की वृद्धि के लिए बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है जैसे ही इस पर उनका अनुमोदन आता है सीट वृद्धि कर दी जाएगी।

३. मगध विश्वविद्यालय बोधगया के परिसर में संचालित 16 वोकेशनल कोर्सों में नामांकन की प्रक्रिया चालू है। फिजियोथेरेपी के अलावा अन्य सभी कोर्सों में सीट रिक्त है जिस पर प्रोफेसर इंचार्ज/ डायरेक्टर को दिशा निर्देशित किया गया है कि जो भी छात्र इन कोर्सों में नामांकन लेना चाहते हैं वह 5 जनवरी 2021 तक नामांकन ले सकते हैं।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया